



HAMIRPUR POLICE



थाना मौदहा

दिनांक-08.10.2021

थाना मौदहा क्षेत्र अन्तर्गत गोली काण्ड की घटना का खुलासा, दूसरे पक्ष को फंसाने के उद्देश्य से षणयंत्र कर आरोपी द्वारा अपनी पत्नी को स्वयं गोली मार घायल किया गया था, 02 अभियुक्त अवैध तमंचा/कारतूस सहित गिरफ्तार

दिनांक 26.09.2021 की रात्रि 10:30 पर अरफा बानो (उम्र लगभग 26 वर्ष) पत्नी अरसद मुकीम निवासी उपरोस थाना मौदहा को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारने की सूचना थाना मौदहा में दी गई थी, जिनको इलाज हेतु अस्पताल में एडमिट करवाया गया व तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-293/21 धारा-307/504/506/34 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा मौके पर जाकर क्षेत्राधिकारी मौदहा एवं प्रभारी निरीक्षक मौदहा को घटना में गहनता से जांच कर सही खुसासा करने हेतु निर्देशित किया गया था। थाना मौदहा पुलिस टीम द्वारा गहनता से विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई, इसी क्रम में दिनांक 08.10.2021 को पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आए 02 वांछित अभियुक्तों 1.सोनू उर्फ मकसूद पुत्र जहूर अली उम्र 30 वर्ष निवासी काशीराम कालोनी मीरातालाब कस्बा व थाना मौदहा 2.अरफी उर्फ जमालउद्दीन पुत्र जलालउद्दीन उम्र 30 वर्ष निवासी मो0 उपरोस मैदान कस्बा व थाना मौदहा को गिरफ्तार किया गया, घटना के समय दहशत फैलाने में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर अभियुक्त सोनू उर्फ मकसूद के पास से बरामद हुआ। उक्त घटना निजामी जामा मस्जिद उपरोस कस्बा मौदहा हमीरपुर में पदाधिकारियों को सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा बदले जाने पर नये पदाधिकारियों की सूचना श्रीमान् जिलाधिकारी हमीरपुर महोदय के यहां दिनांक 20.09.2021 को मेल से जानकारी होने के उपरान्त नये पदाधिकारियों को पद ग्रहण से रोकने के लिये तथा उस पक्ष को फंसाने के लिये षणयंत्र के तहत 1. मो0 सुलेमान (पूर्व सचिव) व इनके पुत्रगण 2.अरशद 3. बिट्टू उर्फ शादाब हुसैन व इनके सहयोगी 4. सोनू उर्फ मकसूद 5. छोट बाबू उर्फ इस्लामुद्दीन 6. हलीम लगड़ा 7. अरफी उर्फ जमालउद्दीन द्वारा एक राय होकर दिनांक 26.09.2021 को समय करीब 22.40 बजे षणयंत्र के तहत तमंचे से फायर करके दहशत फैलाकर व अरशद उपरोक्त द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती अरफा उम्र 27 वर्ष के बायीं तरफ गले के करीब कंधे में अवैध तमंचे से त्वचा को खींचकर गोली मारकर घायल किया गया। और गोली आर पार हुई, कालर बोन या कोई हड्डी फैक्चर नहीं हुई। मो0 अरशद थाने का एच.एस. है जिसका HS No.265A है जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर गुण्डा गैगैस्टर, NDPS आदि पूर्व से करीब 08 मुकदमें दर्ज है। तथा अभियुक्त सोनू उर्फ मकसूद व बिट्टू उर्फ शादाब हुसैन उपरोक्त भी NDPS व धारा 307 भा0द0सं0 के मुकदमें में पूर्व में भी जेल जा चुका है। इनके द्वारा भी दहशत फैलाने के लिये फायर किया गया और अरफी उर्फ जमालउद्दीन निवासी काशीराम कालोनी में खड़ी मोटर साइकिल से घटना करने के बाद छोट बाबू उर्फ इस्लामुद्दीन को लेकर फरार हो गया तथा बिट्टू उर्फ शादाब हुसैन व हलीम लगड़ा व अरशद मजरुबा श्रीमती अरफा को चोटिल हालत में लेकर सी.एच.सी मौदहा गये। जिसके सम्बन्ध में मजरुबा श्रीमती अरफा के पति मो0 अरशद द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 293/21 धारा 307/504/506/34 IPC का मुकदमा षणयंत्र व स्वयं घटना करके

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा वक्फ बोर्ड नं0 81 निजामी जामा मस्जिद के नये पदाधिकारियो 1. पिन्टू उर्फ रफीकउद्दीन (नये वक्फ सदस्य) व सम्बन्धित 2. इकबाल महतो 3. जावेद महतो 4. मुनीर अहमद के विरुद्ध दर्ज कराया गया। तथा गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है।

प्रकाश में आये गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. सोनू उर्फ मकसूद पुत्र जहूर अली उम्र 30 वर्ष निवासी काशीराम कालोनी मीरातालाब कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर
2. अरफी उर्फ जमालउद्दीन पुत्र जलालउद्दीन उम्र 30 वर्ष निवासी मो0 उपरौस मैदान कस्बा व थाना मौदहा जिला हमीरपुर

प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त

1. अरशद पुत्र सुलेमान निवासी उपरौस कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर
2. बिट्टू उर्फ शादाब हुसैन पुत्र सुलेमान निवासी उपरौस कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर
3. सुलेमान पुत्र हबीब अहमद निवासी उपरौस कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर
4. छोट बाबू उर्फ इस्लामुद्दीन पुत्र लाला लम्बरदार निवासी उपरौस कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर
5. हलीम लंगडा पुत्र अज्ञात निवासी उपरौस कस्बा व थाना मौदहा जिला हमीरपुर

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 313/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मौदहा जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सोनू उर्फ मकसूद

1. मु0अ0सं0 46/2018 धारा 8/20 NDPS Act थाना मौदहा जनपद हमीरपुर
2. मु0अ0सं0 293/21 धारा 307/504/506/34/120बी IPC थाना मौदहा जनपद हमीरपुर
3. मु0अ0सं0 313/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मौदहा जनपद हमीरपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरफी उर्फ जमालउद्दीन

1. मु0अ0सं0 293/21 धारा 307/504/506/34/120बी IPC थाना मौदहा जनपद हमीरपुर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम

1. निरीक्षक श्री शिवकेश सिंह यादव थाना मौदहा हमीरपुर
2. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह थाना मौदहा हमीरपुर
3. उ0नि0 श्री यज्ञनारायण भार्गव थाना मौदहा हमीरपुर
4. का0 गौरव भदौरिया थाना मौदहा हमीरपुर
5. का0 देवेश सिंह थाना मौदहा हमीरपुर
6. रि0का अजय कुमार थाना मौदहा हमीरपुर

